



Daughter of Chitranshi-Somi jair

25 Feb 2026

07:00 PM

Pune

Model: Web-MyKundli

Order No: 121423601

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 25/02/2026
दिन _____: बुधवार
जन्म समय _____: 19:00:46 घंटे
इष्ट _____: 30:11:14 घटी
स्थान _____: Pune
राज्य _____: Maharashtra
देश _____: India

अक्षांश _____: 18:34:00 उत्तर
रेखांश _____: 73:58:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:34:08 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 18:26:38 घंटे
वेलान्तर _____: -00:13:04 घंटे
साम्पातिक काल _____: 04:48:20 घंटे
सूर्योदय _____: 06:56:16 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:38:22 घंटे
दिनमान _____: 11:42:06 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: वसन्त
सूर्य के अंश _____: 12:43:44 कुम्भ
लग्न के अंश _____: 18:47:05 सिंह

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: सिंह - सूर्य
राशि-स्वामी _____: वृष - शुक्र
नक्षत्र-चरण _____: मृगशिरा - 1
नक्षत्र स्वामी _____: मंगल
योग _____: विष्कुम्भ
करण _____: कौलव
गण _____: देव
योनि _____: सर्प
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: वैश्य
वश्य _____: चतुष्पाद
वर्ग _____: मृग
युँजा _____: पूर्व
हंसक _____: भूमि
जन्म नामाक्षर _____: वे-वैशाली
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मीन

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1947	फाल्गुन	6
पंजाबी	संवत : 2082	फाल्गुन	14
बंगाली	सन् : 1432	फाल्गुन	12
तमिल	संवत : 2082	मासी	13
केरल	कोल्लम : 1201	कुंभम	13
नेपाली	संवत : 2082	फाल्गुन	13
चैत्रादि	संवत : 2082	फाल्गुन	शुक्ल 9
कार्तिकादि	संवत : 2082	फाल्गुन	शुक्ल 9

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 9
तिथि समाप्ति काल _____ : 26:41:10
जन्म तिथि _____ : 9
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : रोहिणी
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 13:38:37 घंटे
जन्म योग _____ : मृगशिरा
सूर्योदय कालीन योग _____ : विष्कुम्भ
योग समाप्ति काल _____ : 25:28:27 घंटे
जन्म योग _____ : विष्कुम्भ
सूर्योदय कालीन करण _____ : बालव
करण समाप्ति काल _____ : 15:46:19 घंटे
जन्म करण _____ : कौलव
भयात _____ : 13:25:23
भभोग _____ : 56:21:45
भोग्य दशा काल _____ : मंगल 5 वर्ष 3 मा 29 दि

घात चक्र


मास _____ : मार्गशीर्ष
तिथि _____ : 5-10-15
दिन _____ : शनिवार
नक्षत्र _____ : हस्त
योग _____ : शुक्ल
करण _____ : शकुनि
प्रहर _____ : 4
वर्ग _____ : सिंह
लग्न _____ : वृष
सूर्य _____ : वृश्चिक
चन्द्र _____ : धनु
मंगल _____ : धनु
बुध _____ : कन्या
गुरु _____ : मकर
शुक्र _____ : मकर
शनि _____ : तुला
राहु _____ : मकर

Pulak Sagarm


T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

श	चं	गु
रा शु सू बु मं		के ल

लग्न कुंडली

चं	श	रा शु सू मं
गु		
ल के		

विंशोत्तरी
मंगल 5वर्ष 3मा 29दि
मंगल

25/02/2026

27/06/2144

मंगल	27/06/2031
राहु	26/06/2049
गुरु	26/06/2065
शनि	26/06/2084
बुध	27/06/2101
केतु	27/06/2108
शुक्र	27/06/2128
सूर्य	27/06/2134
चन्द्र	27/06/2144

योगिनी
संकटा 6वर्ष 1मा 3दि
संकटा

25/02/2026

31/03/2032

	25/02/2026
मंगला	31/03/2026
पिंगला	10/09/2026
धान्या	11/05/2027
भामरी	31/03/2028
भद्रिका	11/05/2029
उल्का	10/09/2030
सिद्धा	31/03/2032

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	सिंह 03:51:48	सिंह 18:47:05
2	कन्या 03:51:48	कन्या 18:56:31
3	तुला 04:01:14	तुला 19:05:57
4	वृश्चिक 04:10:40	वृश्चिक 19:15:23
5	धनु 04:10:40	धनु 19:05:57
6	मकर 04:01:14	मकर 18:56:31
7	कुम्भ 03:51:48	कुम्भ 18:47:05
8	मीन 03:51:48	मीन 18:56:31
9	मेष 04:01:14	मेष 19:05:57
10	वृष 04:10:40	वृष 19:15:23
11	मिथुन 04:10:40	मिथुन 19:05:57
12	कर्क 04:01:14	कर्क 18:56:31


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	सिंह	18:47:05
2	कन्या	17:45:44
3	तुला	18:30:33
4	वृश्चिक	19:15:23
5	धनु	19:23:15
6	मकर	19:16:10
7	कुम्भ	18:47:05
8	मीन	17:45:44
9	मेष	18:30:33
10	वृष	19:15:23
11	मिथुन	19:23:15
12	कर्क	19:16:10


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त
चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण
धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : मंगल 5 वर्ष 3 मास 29 दिन

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
25/02/2026	27/06/2031	26/06/2049	26/06/2065	26/06/2084
27/06/2031	26/06/2049	26/06/2065	26/06/2084	27/06/2101
00/00/0000	राहु 09/03/2034	गुरु 14/08/2051	शनि 29/06/2068	बुध 23/11/2086
25/02/2026	गुरु 01/08/2036	शनि 25/02/2054	बुध 09/03/2071	केतु 20/11/2087
गुरु 16/11/2026	शनि 08/06/2039	बुध 02/06/2056	केतु 17/04/2072	शुक्र 20/09/2090
शनि 26/12/2027	बुध 26/12/2041	केतु 08/05/2057	शुक्र 18/06/2075	सूर्य 27/07/2091
बुध 23/12/2028	केतु 13/01/2043	शुक्र 07/01/2060	सूर्य 30/05/2076	चंद्र 26/12/2092
केतु 21/05/2029	शुक्र 13/01/2046	सूर्य 26/10/2060	चंद्र 29/12/2077	मंगल 23/12/2093
शुक्र 21/07/2030	सूर्य 08/12/2046	चंद्र 25/02/2062	मंगल 07/02/2079	राहु 11/07/2096
सूर्य 26/11/2030	चंद्र 08/06/2048	मंगल 01/02/2063	राहु 14/12/2081	गुरु 17/10/2098
चंद्र 27/06/2031	मंगल 26/06/2049	राहु 26/06/2065	गुरु 26/06/2084	शनि 27/06/2101

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
27/06/2101	27/06/2108	27/06/2128	27/06/2134	27/06/2144
27/06/2108	27/06/2128	27/06/2134	27/06/2144	00/00/0000
केतु 23/11/2101	शुक्र 27/10/2111	सूर्य 15/10/2128	चंद्र 28/04/2135	मंगल 23/11/2144
शुक्र 23/01/2103	सूर्य 27/10/2112	चंद्र 15/04/2129	मंगल 27/11/2135	राहु 12/12/2145
सूर्य 31/05/2103	चंद्र 27/06/2114	मंगल 21/08/2129	राहु 28/05/2137	गुरु 26/02/2146
चंद्र 30/12/2103	मंगल 28/08/2115	राहु 16/07/2130	गुरु 27/09/2138	00/00/0000
मंगल 27/05/2104	राहु 27/08/2118	गुरु 04/05/2131	शनि 27/04/2140	00/00/0000
राहु 15/06/2105	गुरु 27/04/2121	शनि 15/04/2132	बुध 26/09/2141	00/00/0000
गुरु 22/05/2106	शनि 27/06/2124	बुध 19/02/2133	केतु 28/04/2142	00/00/0000
शनि 01/07/2107	बुध 28/04/2127	केतु 27/06/2133	शुक्र 27/12/2143	00/00/0000
बुध 27/06/2108	केतु 27/06/2128	शुक्र 27/06/2134	सूर्य 27/06/2144	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल मंगल 5 वर्ष 3 मा 30 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

मंगल - गुरु 25/02/2026 16/11/2026	मंगल - शनि 16/11/2026 26/12/2027	मंगल - बुध 26/12/2027 23/12/2028	मंगल - केतु 23/12/2028 21/05/2029	मंगल - शुक्र 21/05/2029 21/07/2030
25/02/2026 शनि	20/01/2027 बुध	16/02/2028 केतु	31/12/2028 शुक्र	31/07/2029 सूर्य
20/03/2026 बुध	18/03/2027 केतु	08/03/2028 शुक्र	25/01/2029 सूर्य	21/08/2029 चंद्र
07/05/2026 केतु	11/04/2027 शुक्र	07/05/2028 सूर्य	02/02/2029 चंद्र	25/09/2029 मंगल
27/05/2026 शुक्र	17/06/2027 सूर्य	25/05/2028 चंद्र	14/02/2029 मंगल	20/10/2029 राहु
23/07/2026 सूर्य	07/07/2027 चंद्र	24/06/2028 मंगल	23/02/2029 राहु	23/12/2029 गुरु
09/08/2026 चंद्र	10/08/2027 मंगल	16/07/2028 राहु	17/03/2029 गुरु	18/02/2030 शनि
06/09/2026 मंगल	03/09/2027 राहु	08/09/2028 गुरु	06/04/2029 शनि	27/04/2030 बुध
26/09/2026 राहु	02/11/2027 गुरु	26/10/2028 शनि	30/04/2029 बुध	26/06/2030 केतु
16/11/2026 गुरु	26/12/2027 शनि	23/12/2028 बुध	21/05/2029 केतु	21/07/2030
मंगल - सूर्य 21/07/2030 26/11/2030	मंगल - चंद्र 26/11/2030 27/06/2031	राहु - राहु 27/06/2031 09/03/2034	राहु - गुरु 09/03/2034 01/08/2036	राहु - शनि 01/08/2036 08/06/2039
27/07/2030 सूर्य	13/12/2030 चंद्र	22/11/2031 राहु	04/07/2034 गुरु	13/01/2037 शनि
07/08/2030 चंद्र	26/12/2030 मंगल	01/04/2032 गुरु	20/11/2034 शनि	10/06/2037 बुध
14/08/2030 मंगल	27/01/2031 राहु	04/09/2032 शनि	24/03/2035 बुध	09/08/2037 केतु
02/09/2030 राहु	24/02/2031 गुरु	22/01/2033 बुध	14/05/2035 केतु	30/01/2038 शुक्र
20/09/2030 गुरु	30/03/2031 शनि	20/03/2033 केतु	07/10/2035 शुक्र	23/03/2038 सूर्य
10/10/2030 शनि	29/04/2031 बुध	01/09/2033 शुक्र	20/11/2035 सूर्य	18/06/2038 चंद्र
28/10/2030 बुध	12/05/2031 केतु	20/10/2033 सूर्य	01/02/2036 चंद्र	17/08/2038 मंगल
04/11/2030 केतु	16/06/2031 शुक्र	10/01/2034 चंद्र	23/03/2036 मंगल	21/01/2039 राहु
26/11/2030 शुक्र	27/06/2031 सूर्य	09/03/2034 मंगल	01/08/2036 राहु	08/06/2039 गुरु
राहु - बुध 08/06/2039 26/12/2041	राहु - केतु 26/12/2041 13/01/2043	राहु - शुक्र 13/01/2043 13/01/2046	राहु - सूर्य 13/01/2046 08/12/2046	राहु - चंद्र 08/12/2046 08/06/2048
18/10/2039 बुध	17/01/2042 केतु	15/07/2043 शुक्र	30/01/2046 सूर्य	22/01/2047 चंद्र
12/12/2039 केतु	22/03/2042 शुक्र	08/09/2043 सूर्य	26/02/2046 चंद्र	23/02/2047 मंगल
15/05/2040 शुक्र	10/04/2042 सूर्य	08/12/2043 चंद्र	17/03/2046 मंगल	17/05/2047 राहु
01/07/2040 सूर्य	12/05/2042 चंद्र	10/02/2044 मंगल	05/05/2046 राहु	29/07/2047 गुरु
16/09/2040 चंद्र	04/06/2042 मंगल	23/07/2044 राहु	18/06/2046 गुरु	23/10/2047 शनि
09/11/2040 मंगल	31/07/2042 राहु	16/12/2044 गुरु	09/08/2046 शनि	09/01/2048 बुध
29/03/2041 राहु	20/09/2042 गुरु	08/06/2045 शनि	25/09/2046 बुध	10/02/2048 केतु
31/07/2041 गुरु	20/11/2042 शनि	10/11/2045 बुध	14/10/2046 केतु	11/05/2048 शुक्र
26/12/2041 शनि	13/01/2043 बुध	13/01/2046 केतु	08/12/2046 शुक्र	08/06/2048 सूर्य

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	7
भाग्यांक	1
मित्र अंक	2, 3, 6, 7, 1
शत्रु अंक	4, 5, 8
शुभ वर्ष	25,34,43,52,61
शुभ दिन	मंगल, रवि, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, सूर्य, गुरु
मित्र राशि	मकर, कुम्भ
मित्र लग्न	वृश्चिक, मेष, मिथुन
अनुकूल देवता	विष्णु
शुभ रत्न	माणिक्य
शुभ उपरत्न	लाल हकीक, लाल तुर्मली
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	नारंगी
शुभ दिशा	पूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मूंगा, केसर, रक्तचन्दन
दान अन्न	गेहूँ
दान द्रव्य	घी

Pulak Sagarm


T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
माणिक्य	सूर्य	81%	दम्पति, स्वास्थ्य
मूंगा	मंगल	75%	दम्पति, भाग्योदय, सुख
पुखराज	गुरु	73%	धनार्जन, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
हीरा	शुक्र	70%	दम्पति, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
पन्ना	बुध	67%	दम्पति, धनार्जन, धन
लहसुनिया	केतु	67%	स्वास्थ्य, दम्पति
मोती	चंद्र	52%	व्यावसायिक उन्नति, कम खर्च
गोमेद	राहु	19%	दाम्पत्य कष्ट, दुर्घटना
नीलम	शनि	0%	दुर्घटना, शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
मंगल	27/06/2031	88%	58%	88%	55%	80%	70%	0%	0%	73%
राहु	26/06/2049	69%	29%	62%	67%	73%	77%	0%	44%	55%
गुरु	26/06/2065	88%	58%	81%	55%	86%	58%	0%	19%	67%
शनि	26/06/2084	69%	29%	62%	73%	73%	77%	0%	31%	55%
बुध	27/06/2101	88%	29%	75%	80%	73%	77%	0%	19%	67%
केतु	27/06/2108	69%	29%	81%	67%	73%	77%	0%	0%	80%
शुक्र	27/06/2128	69%	29%	75%	73%	73%	83%	0%	31%	73%
सूर्य	27/06/2134	94%	58%	81%	67%	80%	58%	0%	0%	55%
चंद्र	27/06/2144	88%	64%	75%	73%	73%	70%	0%	0%	55%

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पडता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पडता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	03/06/2027-20/10/2027	23/02/2028-08/08/2029	05/10/2029-17/04/2030
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/08/2029-05/10/2029	17/04/2030-31/05/2032	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	27/08/2036-22/10/2038	05/04/2039-13/07/2039	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	08/12/2046-06/03/2049	10/07/2049-04/12/2049	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	27/05/2059-11/07/2061	13/02/2062-07/03/2062	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	11/07/2061-13/02/2062	07/03/2062-24/08/2063	06/02/2064-09/05/2064
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	13/10/2065-03/02/2066	03/07/2066-30/08/2068	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	16/01/2076-11/07/2076	11/10/2076-15/01/2079	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	21/05/2086-21/05/2086	08/02/2087-18/07/2088	31/10/2088-05/04/2089
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	18/07/2088-31/10/2088	05/04/2089-19/09/2090	25/10/2090-21/05/2091
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	19/09/2090-25/10/2090	21/05/2091-02/07/2093	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	18/08/2095-11/10/2097	02/05/2098-20/06/2098	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/11/2105-25/02/2108	29/07/2108-23/11/2108	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया

फल

सम
शुभ
शुभ
अशुभ
शुभ

क्षेत्र

बदनामी
व्यावसायिक उन्नति
धनार्जन
बुरा स्वास्थ्य
सन्तति

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। चूंकि आपका मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है अतः इसके प्रभाव से आपके पति का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा स्वभाव से ही उनमें उग्रता रहेगी जिससे यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन यह अल्प समय के लिए होंगे तथा दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप भी यदा कदा पित या गर्मी आदि से परेशानी की अनुभूति कर सकती हैं। मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह कार्य में विलम्ब होने की संभावना रहेगी तथा विवाह से पूर्व वार्ताओं में भी गतिरोध रहेगा लेकिन अन्त में आप को सफलता अवश्य प्राप्त होगी तथा सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

सप्तम भावस्थ मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जन्य दोषों से आपको परेशानी हो सकती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप परिश्रम एवं पराक्रम से इच्छित सफलता अर्जित करेंगी तथा समाज से भी न्यूनाधिक मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। लग्न पर दृष्टि के प्रभाव से स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा तथा यदा कदा मानसिक अशान्ति की भी अनुभूति हो सकती है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद उत्पन्न होंगे जिससे परिवार की शान्ति प्रभावित होगी लेकिन इसका दुष्प्रभाव अल्प मात्रा में ही रहेगा।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए आपको किसी ऐसे मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिससे आपका परस्पर मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इससे आपके

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा सुखी एवं प्रसन्नता पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलार्द्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower

Hanuman Chauraha, jank ganj

Gwalior - Pin - 474001

9425187186, 9302614644

Astrodr.hcjain@gmail.com

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में तक्षक नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को पैतृक धन सम्पत्ति का अभिलषित फल प्रायः प्राप्त नहीं होता है। पैतृक सम्पत्ति को या तो दान दे देता है या आंशिक रूप में नुकसान हो जाता है। प्रेम प्रसंग में आंशिक असफलता होती है एवं गुप्त प्रसंग से धोखा होने की संभावना अधिक रहती है। वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी-कभी दुःखमय हो जाता है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है।

इस योग के कारण जातक के अनेक शत्रु होते हैं और वे समय-समय पर पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। जातक को साझेदारी के काम में नुकसान मिलता है।

इस योग के कारण जातक लालची प्रवृत्ति के, लाटरी, जुआ, सट्टा आदि के शैकीन हो जाते हैं। बनते कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं। कभी-कभी बड़ा पद मिलते-मिलते रह जाता है। किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी व चिन्ता पीछा नहीं छोड़ती। जातक को प्रायः पुत्र सन्तान का अभाव रहता है तथा कन्या से मानसिकता जुड़ती नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ सदैव समझौते का रुख अपनाना चाहिये तभी गृहस्थ जीवन विशेष रूप से सुखी रह सकता है।

इस योग के प्रभाव से इन्द्रिय जन्य गुप्त रोग जीवन में कभी-कभी परेशान करते रहते हैं। दूसरों को दिया हुआ पैसा प्रायः वापस नहीं आता है। फलस्वरूप जातक की आर्थिक स्थिति आंशिक रूप में नाजुक हो जाती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में मंगल और गुरु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुण्डली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राहमण और पति को दान दें। विद्यालय में पुस्तकों का दान करें।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के

कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

ग्रह फल

सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, कोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके शुभ प्रभाव से धनलाभ प्राप्त करने में वे सफल होंगे तथा जीवन में सर्वप्रकार से आपकी सहायता एवं सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह कराने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही आप उनकी विश्वास पात्र भी होंगी।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी आज्ञा पालन में भी नित्य रुचिशील रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी होंगे जिससे सम्बन्धों में क्षणिक तनाव एवं कटुता उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समयोपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगी।

चन्द्र

दसवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक कार्यकुशल, व्यापारी, कार्यपरायण, सुखी, यशस्वी, विद्वान्, कुल-दीपक, दयालु, निर्बल बुद्धि, सन्तोषी लोकहितैषी, मानी, प्रसन्नचित्त एवं दीर्घायु होता है।

वृष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक सुन्दर प्रसन्नचित्तवाला, कामी, दान करने वाला, अधिक कन्या सन्तति वाला, शान्त, कफरोगी, सुखी, कुशा बुद्धिवाला, सुगठित शरीरवाला, धनी, सन्तोषी, चंचलमन, परलिंगी के प्रति आकर्षण, खाने-पीने का शौकीन एवं लोकप्रिय होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति दशम भाव में है। अतः माता का आप पूर्ण स्नेह प्राप्त करेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। धन सम्पत्ति तथा अन्य आवश्यक सुख संसाधनों से वे युक्त रहेंगी तथा जीवन के आवश्यक कार्यों में आपको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आप आजीविका, व्यापार तथा यश प्राप्ति भी उन्हीं के सहयोग से अर्जित करने में सफल होंगी।

आप उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखेंगी एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा यदा कदा आपस में सैद्धान्तिक मतभेद होंगे किन्तु उससे आपके संबंधों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी उनकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा हर सम्भव उनका सहयोग करने के लिए तत्पर

रहेंगी। इस प्रकार आप एक दूसरों के लिए सामान्य रूप से शुभ ही समझी जाएंगी।

मंगल

सातवें भाव में मंगल हो तो जातक वातरोगी, राजभीरु, शीघ्रकोपी, कटुभाषी, स्त्रीदुःखी, धूर्त, मूर्ख, निर्धन, घातकी, धननाशक एवं ईर्ष्यालु होता है।

कुम्भ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, सट्टे से धननाशक, आचारहीन, मत्सरवृत्ति एवं बुद्धिहीन होता है।

आपके जन्म समय में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा वे शारीरिक रूप से कष्टानुभूति भी प्राप्त करेंगे। आप उनकी प्रिय रहेंगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह तथा सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। धन धान्य से वे युक्त रहेंगे तथा जीवन में उनसे आप पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त करेंगी एवं आपकी विवाह सम्पन्न कराने में भी उनका मुख्य योगदान रहेगा। साथ ही व्यापार संबंधी कार्यों एवं सुख दुःख में वे आपको अपनी ओर से पूर्ण आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करते रहेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह एवं विश्वास रहेगा एवं उनके समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपका सहयोग रहेगा। साथ ही विषम परिस्थितियों में भी आप उनको आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इसमें कटुता भी आएगी लेकिन यह अस्थायी होगी तथा शीघ्र संबंध सामान्य हो जाएंगे।

बुध

सातवें भाव में बुध हो तो जातक सुन्दर, विद्वान्, कुलीन, व्यवसायकुशल, धनी, लेखक, सम्पादक, उदार, सुखी, अल्पवीर्य, दीर्घायु एवं धार्मिक होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

गुरु

ग्यारहवें भाव में गुरु हो तो जातक व्यवसायी, धनिक, सन्तोषी, सुन्दरनिरोगी, लाभवान्, पराकमी, सद्ब्ययी, बहुस्त्रीयुक्त, विद्वान् राजपूज्य एवं अल्पसन्ततिवान् होता है।

मिथुन राशि में गुरु हो तो जातक योग्य वक्ता, सुगठित शरीर, लम्बाकद, उदार, विद्वान्, कई भाषाओं का जानने वाला, अनायास धनप्राप्त करने वाला, लोकमान्य, लेखक एवं व्यवहार कुशल होता है।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

शुक्र

सप्तमभाव में शुक्र हो तो जातक लोकप्रिय, धनिक, चिन्तित, विवाह के बाद भाग्योदय, साधुप्रेमी, स्त्री से सुख, कामी, भाग्यवान् गानप्रिय, विलासी, अल्पव्यभिचारी चंचल एवं उदार होता है।

कुम्भ राशि में शुक्र हो तो जातक शान्तिप्रिय, दूसरों को सहायता करने वाला, सच्चरित्र, सुन्दर, लोकप्रिय, चिन्ताशील एवं रोग से सन्तप्त होता है।

शनि

अष्टम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान् स्थूलशरीर, उदार प्रकृति, कपटी, गुप्तरोगी, वाचाल, डरपोक, कुष्ठरोगी एवं धूर्त होता है।

मीन राशि में शनि हो तो जातक अविचारी, शिल्पकार हतोत्साही, धनी, प्रसिद्ध, सुखी एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है।

राहु

सप्तम भाव में राहु हो तो चतुर, लोभी, दुराचारी, दुष्कर्मी वातरोगजनक, भ्रमणशील, व्यापार से हानिदायक एवं स्त्रीनाशक होता है।

कुम्भ राशि में राहु हो तो जातक विद्वान्, लेखक मितभाषी एवं मितव्ययी होता है।

केतु

लग्न (प्रथम) में केतु हो तो जातक चंचल मूर्ख दुराचारी, भीरु तथा वृश्चिक राशि में हो तो सुखकारक, धनी एवं परिश्रमी होता है।

सिंह राशि में केतु हो तो जातक बहुभाषी, डरपोक, असहिष्णु, सर्पदशन का भय एवं असन्तोषी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- मंगल
(25/02/2026 - 27/06/2031)

मंगल की महादशा 25/02/2026 को आरम्भ और 7 वर्ष की होकर 27/06/2031 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल सप्तम भाव में स्थित है। मंगल की दृष्टि प्रथम, द्वितीय तथा दशम भाव पर है। इसके पहले आपकी 10 वर्ष की चन्द्र दशा चल रही थी। आपकी जीवन वृत्ति उत्तम रही होगी और यश, ख्याति तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई होगी। मंगल की दशा के दौरान आपका धन-संग्रह होगा, साझेदारी में लाभ होगा और यात्रा होगी।

स्वास्थ्य :

ताप संबंधित कुछ कष्ट को छोड़कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मौसम में परिवर्तन के कारण समस्याएं कुछ बढ़ सकती हैं। आप-ज्वर, सरदर्द, पित्तदोष तथा सर्दी-जुकाम आदि से पीड़ित हो सकते हैं। आपकी जननेन्द्रिय प्रभावित हो सकती है। इन मामूली गड़बड़ियों को छोड़, जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है, आपको कोई गम्भीर बीमारी नहीं होगी।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप धन-संग्रह कर सकते हैं। व्यापार में कमाई में वृद्धि होगी। व्यावसायिक आय में भी दशा विकास के साथ वृद्धि होगी। जीविका के लिये सिविल इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवाओं, सैन्य सेवाओं, सर्जन अथवा दन्त चिकित्सक के कार्य, सुरक्षा वैज्ञानिक का कार्य अथवा औद्योगिक-प्रतिष्ठान में नौकरी का चयन कर सकते हैं। लोहा-इस्पात, खेल के सामान, ताम्बे के सामान, खनिज, दवा आदि का व्यापार लाभदायक होगा। सार्वजनिक सेवा अथवा कार्यालय में कार्य कर रहे लोग अच्छा करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को लाभ, आय में वृद्धि, पदोन्नति और उच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को यश, ख्याति प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी तथा दशा की प्रगति के साथ-साथ व्यवसाय-व्यापार में तरक्की होगी।

वाहन, यात्रा, सम्पत्ति :

शनि की अन्तर्दशा में आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इस अन्तर्दशा के दौरान आपकी सम्पत्ति का विकास होगा। इस दशा में आपको मकान अथवा अन्य जमीन-जायदाद की प्राप्ति होगी। आपके जीवनसाथी को इस दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपकी छोटी यात्राएं होंगी। बुध की अन्तर्दशा में लम्बी और लाभदायक यात्राएं होंगी।

शिक्षा :

आप अपनी शिक्षा में अच्छा करेंगे। आप खेल तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आपकी कला के कार्यों में रुचि होगी। आपको अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। इस दशा के दौरान आप में पहलशक्ति तथा कर्मशक्ति प्रचुर मात्रा में होगी और आप अपने नेतृत्व गुणों का उपयोग करेंगे। सार्वजनिक मामलों, गणित, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग, व्यापार आदि में आपकी रुचि होगी।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

परिवार :

परिवार में आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे। आपके बच्चे सक्रिय तथा उद्यमी होंगे और आप उनसे गौरवान्वित होंगे। आपके जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या होगी किन्तु, वे क्रियाशील, स्फूर्तिवान और आत्मविश्वासी होंगे। आपके जीवनसाथी के साथ आपका सम्बन्ध सन्तोषजनक रहेगा। आपकी माता की जमीन-जायदाद, यश और ख्याति तथा कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता को हर प्रकार का लाभ मिलेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके मित्रों की संख्या विशाल होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को सट्टे में कुछ हानि के साथ लाभ और उत्तम तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति होगी जबकि बड़ों के लिए समय समृद्धिशाली रहेगा। उनके साथ आपके सम्बन्ध उत्तम रहेंगे। आपके व्यापारिक सहयोगियों की संख्या विशाल होगी और आपको उनके साथ का आनन्द मिलेगा। सामाजिक स्तर पर सफलता की सम्भावना है।

अन्तर्दशा :

मंगल की मुख्य दशा में मंगल की अन्तर्दशा के कारण आपका विवाह होगा और संपत्ति, यश तथा ख्याति की प्राप्ति होगी। आगे आनेवाली राहु की दशा में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी तथा छोटी यात्रा हो सकती है। शनि की अन्तर्दशा आपके लिए अति उत्तम होगी और आपको बच्चों से सुख, आराम तथा धन की प्राप्ति होगी। बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपकी लम्बी यात्राएँ होंगी और धन, सुख व पिता से लाभ मिलेगा। केतु के कारण कुछ मानसिक तनाव होगा। लग्नेश शुक्र की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, सुख तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। चन्द्र की अन्तर्दशा में आपके व्यवसाय में तरक्की होगी।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु
(25/02/2026 - 16/11/2026)**

आपकी मंगल की महादशा 25/02/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 25/02/2026 को प्रारंभ होकर 16/11/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आप सफल और धनी होंगे। धन का संचय होगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। कोई पुरस्कार मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों से मित्रता हो सकती है, उनसे लाभ होगा। व्यापार में लाभ होगा। घर में कोई उत्सव हो सकता है। आयु में बड़े लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। विवाह हो सकता है। घरेलू सुख मिलेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी; शत्रु परास्त होंगे। आपके पिता की समस्याएं सुलझेंगी; उच्च पद और शांति की प्राप्ति होगी। माता को अचानक धन या अचल संपत्ति मिल सकते हैं। भाई-बहन धनी बनेंगे, यात्राएं होंगी, उच्च पद मिलेगा, समाज में उन्नति होगी।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारियों को निवेश से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मगर कान और पैरों की व्याधियों से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए विष्णुजी की आराधना करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि
(16/11/2026 - 26/12/2027)**

आपके लिए मंगल की महादशा 25/02/2026 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 16/11/2026 को प्रारंभ होकर 26/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आप विवाह द्वारा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार या विरासत से भी धन आ सकता है। अध्यात्म में रुचि होगी। परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निभाएंगे। घर में शांति रहेगी। खानपान में देखभाल ओर नियंत्रण रखें। खुद की कमाई आमदनी भी पर्याप्त होगी। संतान से सुख मिलेगा। प्रसिद्धि और उच्चपद का योग है। प्रोन्नति के साथ तबादला हो सकता है।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

आपके जीवनसाथी की आय में वृद्धि होगी। आपके पिता अध्यात्म में रुचि रखेंगे। माता को पहले किये गये निवेश से लाभ होगा। आपके भाई-बहन सब बाधाओं को पार कर लेंगे, उनकी प्रोन्नति हो सकती है।

आपकी संतान को नींव मजबूत करने के लिए परिश्रम करना होगा। अगर वे सेवारत हैं तो अचल संपत्ति से आय हो सकती है।

अगर आप सेवारत हैं तो विरोधी परास्त होंगे, सफलता मिलेगी। व्यापारियों और परामर्शदाताओं की आय में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। नेत्ररोग और पित्त के विकारों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र और सरसों का तेल दान में दें।

**अंतर्दशा :- मंगल - बुध
(26/12/2027 - 23/12/2028)**

आपके लिए मंगल की महादशा 25/02/2026 को प्रारंभ हुई थी। इसमें पांचवी अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 26/12/2027 को प्रारंभ होकर 23/12/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, शिक्षा और सम्मान का कारक है।

इस अवधि में व्यापार में लाभ होगा। साझेदारों के साथ विचार-विनिमय बढ़ेगा। व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है। विदेश भी जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उत्थान होगा। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। घरेलू सुख मिलेगा। ज्योतिष, कविता, धर्म और गणित में रुचि बढ़ेगी। संचार माध्यम और व्यापार में सफल हो सकते हैं। प्रसन्नचित्त और स्थिर बुद्धि वाले होंगे; बहुत से मित्र रहेंगे।

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे। आपके पिता धन कमाएंगे। माता की अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। उन्हें पुस्तकों से प्रेम होगा। भाई-बहनों को निवेश से और शिक्षा से लाभ होगा। उनकी यात्राएँ हो सकती हैं, उच्चशिक्षा में रुचि होगी, धनी बनेंगे।

आपकी संतान को पत्र व्यवहार से लाभ होगा; जनता से संपर्क बढ़ेगा। अगर वे सेवारत हैं तो यात्रा, अनुबंध पर हस्ताक्षर, लेखन या प्रकाशन से लाभ का संकेत है।

अगर आप सेवारत हैं तो धन कमाएंगे। परामर्शदाताओं की समृद्धि बढ़ेगी। व्यापारियों को लाभ में बढ़ोत्तरी मिलेगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्रेयस्कर रहेगा। अरिष्ट से बचाव के लिए गाय को चारा खिलाएं।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

**अंतर्दशा :- मंगल - केतु
(23/12/2028 - 21/05/2029)**

आपके लिए मंगल की महादशा 25/02/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 23/12/2028 को प्रारंभ होकर 21/05/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु नाना और मोक्ष का कारक है।

इस अवधि में आप उच्चपद प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति, प्रसिद्धि और धनलाभ का योग है। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। घरेलू सुख मिलेगा, संतान से खुशी मिलेगी। आप स्वभाव से मददगार हैं। किसी फैसले को करने से पहले गहन विश्लेषण करते हैं। आप साहस का परिचय देंगे। लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी माता की तीर्थयात्रा हो सकती है; उन्हें कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके भाई-बहनों के सम्मान में वृद्धि होगी। उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी, बाधाओं को पार करेंगे।

आपकी संतान के पिता के साथ मधुर संबंध रहेंगे। अगर वे सेवारत हैं तो यात्रा हो सकती है; भाग्यशाली रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं; अप्रत्याशित धन मिल सकता है। परामर्शदाता स्पर्धियों पर विजयी होंगे; सुख-सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। व्यापारी धन कमाएंगे।

उदर रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए शनिवार और मंगलवार को उपवास करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शुक्र
(21/05/2029 - 21/07/2030)**

आपके लिए मंगल की महादशा 25/02/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 21/05/2029 को प्रारंभ होकर 21/07/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, कला और नफासत का कारक है।

इस अवधि में आपका विवाहित जीवन सुखी रहेगा; जीवनसाथी के माध्यम से धनलाभ हो सकता है। व्यापार में लाभ हो सकता है, सौभाग्यशाली होंगे। किसी और को दिया धन वापस आ जाएगा। कला और संगीत में रुचि होगी। उच्चपद और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। सत्कार्यों में भाग लेंगे और साख में वृद्धि होगी। भौतिक सुख उपलब्ध रहेंगे। समाजसेवा से सुख मिलेगा।

आपके जीवनसाथी का भाग्य उत्तम होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके पिता सुख-सुविधाओं, भूमि और वाहन आदि से युक्त रहेंगे। माता के परिवारजनों और मित्रों से

संबंध मधुर रहेंगे। भाई-बहनों की शिक्षा उत्तम होगी, संतान से सुख मिलेगा, निवेश से लाभ होगा, यात्राएं होगी, जीवनसाथी से सुख मिलेगा।

आपकी संतान की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। अगर वे सेवारत हैं तो धन कमाएंगे, यात्राएं होंगी।

अगर आप सेवारत हैं तो धनार्जन उत्तम होगा। परामर्शदाताओं को प्रसिद्धि और धन का संकेत है। व्यापारी धन कमाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उदर रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए लक्ष्मीजी की उपासना करें।

अंतर्दशा :- मंगल - सूर्य (21/07/2030 - 26/11/2030)

आपकी मंगल की महादशा 25/02/2026 को प्रारंभ हो रही है। मंगल महादशा के अंतर्गत सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 4 मास 6 दिन है। आपके लिए सूर्य की अंतर्दशा 21/07/2030 को प्रारंभ होकर 26/11/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य आत्मा, स्वास्थ्य और ऊर्जा का कारक है।

इस अवधि आपकी प्रोन्नति और आकांक्षाओं की पूर्ति का योग है। प्रशासन से लाभ हो सकता है। वांछित स्थान पर तबादला हो सकता है। व्यापारीगण खूब धन कमाएंगे। विवाहित जीवन में कुछ तनाव संभव है। जीवनसाथी के माध्यम से धनलाभ हो सकता है। हर काम में सफलता मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे और नेतृत्वशक्ति उत्तम रहेगी।

जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उच्चपद प्राप्त होगा। आपके पिता को सफलता सरलता से प्राप्त होगी। माता के पास अचल संपत्ति होगी, उत्तम निवास होगा, भूमि से लाभ होगा, बहुत से मित्र होंगे। भाई-बहनों के पास सुख-सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपकी संतान साहित्य या संचार माध्यम में सफल रहेगी। अगर वे सेवारत हैं तो आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, यात्रा संभव है।

अगर आप सेवारत हैं तो सरकार से लाभ होगा। परामर्शदाताओं को सफलता मिलेगी, उच्चपद, धन प्राप्त होंगे। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पित्त से संबंधित विकार से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें।

अंतर्दशा :- मंगल - चंद्र (26/11/2030 - 27/06/2031)

आपके लिए मंगल की महादशा 25/02/2026 को प्रारंभ हुई और को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र अंतर्दशा 7 मास की होगी और 26/11/2030 को प्रारंभ होकर 27/06/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, प्रसन्नता और मस्तिष्क के रुझान

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com

का कारक है।

इस अवधि में आपको सफलता, धन और लोकप्रियता प्राप्त होंगे। आपकी उपलब्धियों को सम्मान मिलेगा। घरेलू सुख और प्रसन्नता प्राप्त होंगे। समाज में कल्याणकारी कार्य करेंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अचल संपत्ति, खेती आदि से लाभ प्राप्त होगा। वाहन सुख मिलेगा। उच्चपद प्राप्त हो सकता है। सुख-संतुष्टि से जीवन बसर होगा। निवास में परिवर्तन संभव है। आपके जीवनसाथी को सब सुख मिलेंगे; अचल संपत्ति से धनलाभ होगा। आपके पिता को विभिन्न माध्यमों से आय होगी। माता को व्यापार से लाभ हो सकता है; घरेलू जीवन सुखी रहेगा। भाई-बहनों को अचानक लाभ हो सकता है।

आपकी संतान को प्रतिद्वंद्वियों पर सफलता मिलेगी, विस्तृत कार्य में दक्ष होंगे, शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे सेवारत हैं तो सफल रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे, धन कमाएंगे, उच्चपद और सम्मान प्राप्त होंगे। परामर्शदाता प्रगति करेंगे, जबकि व्यापारियों को निवेश से लाभ होगा।

Pulak Sagarm

T-13, Cosmo Tower
Hanuman Chauraha, jank ganj
Gwalior - Pin - 474001
9425187186, 9302614644
Astrodr.hcjain@gmail.com